



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 73 राँची, गुरुवार, 12 माघ, 1939 (श०)
1 फरवरी, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

8 दिसम्बर, 2017

संख्या-5/आरोप-1-141/2017 का.- 12012 -- श्री गिरिजानन्द किस्कू, झा०प्र०से० (चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला-बोकारो), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा को 50,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए दिनांक 19 सितम्बर, 2017 को गिरफ्तार किये जाने के आलोक में विभागीय आदेश सं०-10305, दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 द्वारा हिरासत अवधि के लिए निलंबित किया गया है।

2. श्री किस्कू ने दिनांक 21 नवम्बर, 2017 को न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् दिनांक 22 नवम्बर, 2017 के पूर्वाह्न में योगदान समर्पित किया है।

3. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री किस्कू द्वारा समर्पित योगदान को दिनांक 22 नवम्बर, 2017 के प्रभाव से स्वीकृत करते हुए उक्त नियमावली के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत योगदान स्वीकृति की तिथि 22 नवम्बर, 2017 से पुनः निलंबित किया जाता है ।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची रहेगा । ये प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
